

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 23 जनवरी 2023

प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया?

- A) अगरतला
- B) चेन्नई
- C) गुवाहाटी
- D) पणजी

सही उत्तर: A

केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापारियों और उद्यमियों को अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अगरतला, त्रिपुरा में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया।

प्रश्न-2

नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) के सहयोग से निम्नलिखित में से किस बैंक ने ई-बैंक गारंटी (e-BG) सुविधा शुरू की है?

- A) बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) केनरा बैंक
- C) ICICI बैंक
- D) SBI

सही उत्तर: D

देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) के साथ हाथ मिलाकर ई-बैंक गारंटी (e-BG) सुविधा शुरू की है। SBI का दावा है कि इस सुविधा से बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जहां बड़ी मात्रा में बैंक गारंटी का अक्सर उपयोग किया जाता है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 23 जनवरी 2023

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन (GOPIO) के आठ देशों के चैप्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) गुजरात
- B) मध्य प्रदेश
- C) पंजाब
- D) राजस्थान

सही उत्तर: B

मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने ग्लोबल आर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन (GOPIO) के आठ देशों के चैप्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन समझौता ज्ञापनों पर फ्रांस मेट्रोपोल पेरिस , मॉरीशस, रीयूनियन द्वीप, मार्टीनिक, श्रीलंका, GOPIO इंटरनेशनल, मलेशिया एवं मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर किए गए।

प्रश्न-4

COP28 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?

- A) आलोक कुमार शर्मा
- B) कैरोलिना शिम्ट
- C) समेह शौकरी
- D) सुल्तान अल-जबर

सही उत्तर: D

दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक के प्रमुख को इस साल के अंत में दुबई में COP28 वैश्विक जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। सुल्तान अहमद अल जबर वर्तमान में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 23 जनवरी 2023

प्रश्न-5

कौन सा राज्य प्रतिवर्ष मोंगीत त्योहार मनाता है?

- A) अरुणाचल प्रदेश
- B) असम
- C) कर्नाटक
- D) केरल

सही उत्तर: B

मोंगीत त्योहार असम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक संगीत उत्सव है। कला और संगीत की एक पहल के रूप में 2020 में शुरू होने के बाद, मोंगीत का उद्देश्य असम की आगामी संगीत प्रतिभाओं का पोषण करना है।

प्रश्न-6

ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र _____ में स्थापित किया जाएगा।

- A) सूरत
- B) शिलांग
- C) मुंबई
- D) देहरादून

सही उत्तर: B

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (MeitY) और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की कि मार्च 2023 तक शिलांग, मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित किया जाएगा।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 23 जनवरी 2023

प्रश्न-7

निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है?

- A) वायनाड
- B) कोल्लम
- C) एर्नाकुलम
- D) कोट्टायम

सही उत्तर: B

एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, कोल्लम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक समारोह में इस उपलब्धि की घोषणा की।

प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किसने "मिस यूनिवर्स 2023" का खिताब जीता?

- A) आर बॉन ग्रेब्रिएल
- B) दिविता राय
- C) एंड्रीना मार्टिनेज
- D) अमांडा डुडामेल

सही उत्तर: A

मिस यूनिवर्स 2023 पेजेंट की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की आर बॉन ग्रेब्रिएल हैं। 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट के ग्रैंड फिनाले में, दिवा को मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने ताज पहनाया। यह कार्यक्रम 15 जनवरी को अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में हुआ था।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 23 जनवरी 2023

प्रश्न-9

म्नलिखित में से किस राज्य में डॉटफेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था?

- A) अरुणाचल प्रदेश
- B) असम
- C) मध्य प्रदेश
- D) ओडिशा

सही उत्तर: D

ओडिशाके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 15 जनवरी को डॉटफेस्ट का उद्घाटन किया , जो पुरुष हॉकी विश्व कप के मद्देनजर आयोजित भव्य सांस्कृतिक उत्सव है जो 24 जनवरी तक चलेगा।

प्रश्न-10

निम्नलिखित में से कौन सा नौसेना अभ्यास हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था?

- A) वरुण
- B) नसीम अल बहर
- C) अभ्यास काकाडू
- D) बोंगो सागर

सही उत्तर: A

भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन किया है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था, लेकिन 2001 में इसे 'वरुण' नाम दिया गया था और यह भारत-फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया है।